

**BIHAR STATE EDUCATION FINANCE CORPORATION LTD.****BIHAR STUDENT CREDIT CARD SCHEME**

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना

**APPLICATION CUM APPRAISAL FORM FOR EDUCATION LOAN**

शैक्षणिक ऋण हेतु आवेदन-सह-मूल्यांकन प्रपत्र

(PLEASE COMPLETE ALL PARTICULARS  
IN BLOCK LETTERS AND TICK BOXES  
WHEREEVER APPLICABLE)(कृपया बड़े अक्षरों में पूर्ण विवरणी दें तथा बॉक्स में सही  
चिन्ह लगायें जहाँ मान्य हो)

CIF No. (FOR OFFICE USE)

CIF No.(कार्यालय व्यवहार हेतु)

ACCOUNT No. (FOR OFFICE USE)

खाता संख्या(कार्यालय व्यवहार हेतु)

Signed photograph  
of Studentविद्यार्थी का हस्ताक्षरित  
फोटोSigned photograph  
of Co-Applicantसह-आवेदक का हस्ताक्षरित  
फोटो**(1) PERSONAL INFORMATION OF THE APPLICANT**

आवेदक/सह-आवेदक की पूर्ण जानकारी

	First Name प्रथम भाग	Middle Name मध्य भाग	Last Name अंतिम भाग
Full Name of the Student विद्यार्थी का पूरा नाम			
Full Name of Father पिता का पूरा नाम			
Full Name of Mother माता का पूरा नाम			
Full Name of Husband (If Applicable) पति का पूरा नाम (यदि लागू हो)			
Full Name of Co-applicant सह-आवेदक का पूरा नाम			
Relationship of co-applicant with Applicant आवेदक के साथ सह-आवेदक का संबंध			
<b>Address</b> पता	<b>Applicant</b> आवेदक	<b>Co-Applicant</b> सह-आवेदक	
1. Address of Correspondence (House No. Road Name, Locality, City, Pin, District, State etc.) पत्राचार का पता (आवास सं०, सड़क सं०, मुहल्ला, शहर, पिन, जिला, राज्य इत्यादि)			
2. Permanent Address (House No. Road Name, Locality, City, Pin, District, State etc.) स्थायी पता का पूर्ण विवरण (आवास सं०, सड़क सं०, मुहल्ला, शहर, पिन, जिला, राज्य इत्यादि)			
3. E mail address (ईमेल आई डी)			
4. Date of birth (DD/MM/YYYY) (जन्म तिथि (DD/MM/YYYY))			
5. Age (On Date of Application) (उम्र) (आवेदन की तिथि को)	<input type="text"/> Years	<input type="text"/> Months	<input type="text"/> Years <input type="text"/> Months

6. Telephone Number (Personal & Residence) दूरभाष संख्या (व्यक्तिगत एवं आवास)	Mobile (मो.) Residence (आवास)	Mobile (मो.) Residence (आवास)
7. Telephone Number & Fax (Office) दूरभाष संख्या एवं फ़ैक्स (कार्यालय संस्थान जहाँ आवेदक नामांकित हो)	Institute (संस्थान) Fax (फ़ैक्स)	office (कार्यालय) Fax (फ़ैक्स)
8. Sex (लिंग)	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> T	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> T
9. Marital Status वैवाहिक स्थिति	<input type="checkbox"/> Single <input type="checkbox"/> Married	<input type="checkbox"/> Single <input type="checkbox"/> Married
10. Type of identification Proof and Residential proof पहचान का प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र  At least one document is required for identity and one document for address proof. (व्यक्तिगत पहचान हेतु एक अभिलेख एवं पता के पहचान हेतु एक अभिलेख आवश्यक होगा।)	(a) <input type="checkbox"/> Aadhar Card (आधार कार्ड) (b) <input type="checkbox"/> Residence Certificate आवास प्रमाणपत्र (c) <input type="checkbox"/> Voter ID वोटर आई.डी. (d) <input type="checkbox"/> First Page Of Bank Passbook (बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ) (e) <input type="checkbox"/> Others (अन्य)	(a) <input type="checkbox"/> Aadhar Card (आधार कार्ड) (b) <input type="checkbox"/> Residence Certificate आवास प्रमाणपत्र (c) <input type="checkbox"/> Voter ID वोटर आई.डी. (d) <input type="checkbox"/> First Page Of Bank Passbook (बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ) (e) <input type="checkbox"/> Others (अन्य)
11. Category वर्ग	<input type="checkbox"/> SC अनु.जाति <input type="checkbox"/> OBC पिछड़ी जाति <input type="checkbox"/> ST अनु.जनजाति <input type="checkbox"/> EBC अत्यंत पिछड़ी जाति <input type="checkbox"/> General सामान्य	<input type="checkbox"/> SC अनु.जाति <input type="checkbox"/> OBC पिछड़ी जाति <input type="checkbox"/> ST अनु.जनजाति <input type="checkbox"/> EBC अत्यंत पिछड़ी जाति <input type="checkbox"/> General सामान्य
12. Do you belong to minority क्या आप अल्पसंख्यक कोटि से संबंधित हैं?	Yes/No हाँ/नहीं <input type="checkbox"/>	Yes/No हाँ/नहीं <input type="checkbox"/>
13. Required Minimum Education qualification for applied course आवेदित पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम वांछित शैक्षणिक योग्यता	10th or 12th <input type="checkbox"/> 10वीं या 12वीं	
14. Highest educational qualification उच्चतम शैक्षणिक योग्यता		
15. Are you disable क्या आप दिव्यांग हैं	Yes/No हाँ/नहीं <input type="checkbox"/>	

## (2) DETAILS OF THE COURSE

कोर्स/पाठ्यक्रम की जानकारी

1. Name of the Course पाठ्यक्रम का नाम	
2. Name of the College/ Institution महाविद्यालय/संस्थान का नाम	
3. Name of University to which it is affiliated विश्वविद्यालय का नाम जिससे संबद्ध है	
4. Duration of course (Years) पाठ्यक्रम अवधि	

5. Date of Commencement of course पाठ्यक्रम प्रारम्भ होने की तिथि	
6. Date of Completion of course पाठ्यक्रम समापन होने की तिथि	
7. Address of the College/Institution महाविद्यालय/संस्थान का पूरा पता	
8. Roll no. of applicant in institution आवेदक का शैक्षणिक संस्थान में क्रमांक	

### (3) LOAN REQUEST SECTION

#### ऋण आग्रह प्रभाग

1. Cost of the course and other fees (including hostel charges) पाठ्यक्रम शुल्क एवं अन्य शुल्क (हॉस्टल शुल्क के साथ)	
2. Books and stationary (As per Annexure 2 of the guideline) पठन-लेखन सामग्री (मार्गदर्शिका की अनुलग्नक - 2 के अनुसार)	
3. Living expenses (As per Annexure 2 of the guideline) if hostel is not available. रहने, जीवन-यापन (मार्गदर्शिका की अनुलग्नक - 2 के अनुसार) हॉस्टल अनुपलब्धता की स्थिति में।	
4. Cost Of Laptop (if applicable) लैपटॉप शुल्क (यदि लागू हो)	
5. Others अन्य	
A. Total कुल	
B. Funds available from other sources (scholarship etc.) अन्य स्रोतों से उपलब्ध निधि (छात्रवृत्ति इत्यादि)	
C. Total amount of loan applied for (A-B) ऋण हेतु कुल आवेदित राशि	

### (4) BANK ACCOUNT DETAILS OF APPLICANT AND CO-APPLICANT

#### आवेदक एवं सह-आवेदक के बैंक खाता की विवरणी

	Applicant (आवेदक)	Co-applicant (सह-आवेदक)
Name of the Bank (बैंक का नाम)		
Name of the Branch (बैंक शाखा का नाम)		
Bank Account No. (बैंक खाता संख्या)		
IFSC Code (आई०एफ०एस०सी० कोड)		

### (5) PROPOSED/PREFERRED REPAYMENT AND PAYMENT OF INTEREST

#### ऋण अदायगी एवं ब्याज का भुगतान

Repayment by अदाकर्ता	<input type="checkbox"/> By Student/Applicant छात्र/आवेदक के द्वारा	<input type="checkbox"/> By Co-applicant सह-आवेदक के द्वारा	<input type="checkbox"/> By Both दोनों के द्वारा
--------------------------	---	---	--

**(6) DOCUMENTS REQUIRED**

<input type="checkbox"/>	Mark sheet & Certificate of Class X, XII & last qualifying examination of the student (मैट्रिक,+2 एवं अंतिम सफल परीक्षा का अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र)
<input type="checkbox"/>	Copies of letter conferring scholarship, free ship, etc.(if applicable) (प्राप्त छात्रवृत्ति, निःशुल्क शिक्षा का पत्र इत्यादि)(अगर लागू हो)
<input type="checkbox"/>	Documents evidencing duration of course of commencement thereof, viz Prospectus or Certificate from the competent authority of the Institution(if the University is from Bihar, then its not needed) पाठ्यक्रम अवधि के सत्यापन हेतु संस्थान के सक्षम प्राधिकार से प्राप्त पाठ्यक्रम विवरणिका अथवा प्रमाणपत्र। (यदि बिहार के अंदर अवस्थित महाविद्यालय हो, तो इसकी आवश्यकता नहीं है।)
<input type="checkbox"/>	Proof of a admission to the course पाठ्यक्रम में प्रवेश का प्रमाणपत्र
<input type="checkbox"/>	Schedule of expenses for the course पाठ्यक्रम शुल्क की विवरणी अनुसूची
<input type="checkbox"/>	Two copies of Passport size photograph of the student and co-applicant. छात्र एवं सह-आवेदक का दो पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ।
<input type="checkbox"/>	Aadhar card of applicant. आवेदक का आधार कार्ड।
<input type="checkbox"/>	Aadhar card of co-applicant. सह-आवेदक का आधार कार्ड।
<input type="checkbox"/>	First page of bank passbook(for applicant account number & bank IFSC code) बैंक पासबुक का पहला पृष्ठ (आवेदक खाता संख्या और बैंक IFSC कोड के लिए)
<input type="checkbox"/>	Proof of residence (Residential certificate or first page of bank passbook in which address is clearly mentioned or electricity Bill or telephone Bill or passport or Driving license or voter I.D. card निवास प्रमाण पत्र (आवासीय प्रमाण पत्र अथवा बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ जिसमें आवास का पता स्पष्ट रूप से अंकित हो अथवा बिजली बिल अथवा टेलिफोन बिल अथवा पासपोर्ट अथवा ड्राइविंग लाईसेंस अथवा वोटर आई०डी० कार्ड अथवा मतदान हेतु प्रयुक्त प्रमाण पत्रों में से कोई एक)।
<input type="checkbox"/>	Certificate for disability issued from competent authority.(if applicable) सक्षम प्राधिकार से निर्गत दिव्यंगता का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो )

**DECLARATION****घोषणा**

I/We hereby apply for a loan from Bihar State Education Finance Corporation Ltd. to the extent indicated in the Loan Request Section of this application form. I/We declare that the information furnished in this application form are true, accurate and complete and that they shall form the basis of any loan, Bihar State Education Finance Corporation Ltd. may decide to sanction to me/us. I/We confirm that I/We have/had neither insolvency proceeding against me/us nor have been adjudicated insolvent. I/We further confirm that I/We have read the terms and conditions and understood the contents therein. I/We am/are aware that as I/we have opted for loan at simple interest, the equated monthly installment fixed shall comprise of principal and interest.

मैं/हम ऋण हेतु ऋण आग्रह प्रभाग में उल्लेखित राशि की अधिसीमा तक बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड में अपना आवेदन समर्पित करता हूँ/है। मैं/हम घोषणा करते हैं कि आवेदन पत्र में उल्लेखित विवरण मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सही, सटीक एवं पूर्ण हैं एवं बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड द्वारा मेरे/हमारे प्रमाण पत्र में कोई ऋण स्वीकृत किये जाने का निर्णय का आधार गठित करेंगे। मैं/हम संपुष्ट करता/करते हूँ/हैं कि मेरे/हमारे विरुद्ध दिवालियापन का मामला लंबित नहीं है एवं न ही मुझे/हमें सक्षम प्राधिकार द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है। मैं/हम घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने इसमें भरित तथ्यों एवं शर्तों तथा योजना की मार्गदर्शिका का पूर्ण अध्ययन किया है तथा उन्हें सही तरीके से समझा है। मैं/हम इस बात से अवगत हूँ/है कि यदि मैं/हम बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड द्वारा निर्धारित ब्याज एवं किस्त के दो घटक मूलधन एवं ब्याज होंगे।

I/We agree that Bihar State Education Finance Corporation Ltd. may at its discretion conduct discreet inquires in respect of this application. I/we undertake to inform as to any change in my/our occupation/employment, residential/official address and to provide any further information that District Registration and Counseling Center and Bihar State Education Finance Corporation Ltd. may require. Bihar State Education Finance Corporation Ltd. will be at liberty to take such action as it may deem necessary if my/our above statements are found to be untrue. I/We agree that Bihar State Education Finance Corporation Ltd. shall have the sole discretion to reject our loan application or reduce loan amount without any reason. I/We further agree that my/our loan transactions shall be governed by the rules of Bihar State Education Finance Corporation Ltd. which may be in force from time to time.

मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड अपने विवेकाधिकार के आधार पर आवेदन में वर्णित तथ्यों की विवेकपूर्ण जाँच कराने में सक्षम है। मैं/हम वचन देते हैं कि मेरे/हमारे रोजगार/निर्धन, आवासीय पता में परिवर्तन की स्थिति में मैं/हम जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र तथा बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड को सूचित करेंगे अथवा बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड द्वारा याचित कोई अन्य सूचना प्रमाण पत्र या कागजात भी उपलब्ध कराएंगे। बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड प्रस्तुत कथनों की असत्यता की स्थिति में बिना कारण बताए ऋण राशि को रद्द अथवा कम करने हेतु स्वतंत्र होगा। मैं/हम इस बात से सहमत हैं कि ऋण राशि का लेन-देन बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड के समय-समय पर लागू नियमों के आधार पर होगा। बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड के पास आवेदन की अस्वीकृति का अधिकार सुरक्षित होगा।

Signature of the student

Place....

Date...

विद्यार्थी का हस्ताक्षर

स्थान:

तिथि:

Signature of the CO-Applicant

Place....

Date...

सह-आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान:

तिथि:

### आवेदक की घोषणा

1. मैं अपना आधार संख्या समर्पित करता/करती हूँ एवं स्वेच्छापूर्वक सहमति देता/देती हूँ कि यू०आई०डी०ए०आई० भारत सरकार द्वारा निर्गत आधार/यू०आई०डी० संख्या को मेरे नाम से संधारित आवेदन के साथ जोड़ा जाय।
2. इसे एन०पी०सी०आई० (नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया) में दर्ज किया जाए, ताकि सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी०बी०टी०) योजना के तहत लाभ मेरे उक्त बैंक खाता में प्राप्त हो सके।
3. यू०आई०डी०ए०आई० द्वारा प्रदत्त आधार संख्या को मेरी पहचान को प्रमाणित एवं स्थापित करने में उपयोग किया जाय।
4. बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना हेतु आवेदन समर्पित करने के दिन मेरी आयु 25 वर्ष (कुछ मान्य कोर्स के लिए 30 वर्ष) से अधिक नहीं है।
5. मेरे द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का उपयोग नामित बाह्य जॉब एजेंसी (टी पि वि ये) द्वारा सत्यापन हेतु किया जा सकेगा।
6. मेरे द्वारा आवेदन में अंकित मोबाईल संख्या को एस०एम०एस० अलर्ट हेतु उपयोग में लाया जा सकेगा।
7. मेरे द्वारा इस योजना की मार्गदर्शिका एवं समय-समय पर निर्गत संशोधनों का अध्ययन कर लिया गया है।
8. मैं सहमति देता/देती हूँ कि आधार संख्या के बारे में मेरे द्वारा जो उपर्युक्त सूचना उपलब्ध करायी गयी है, उसे उपर्युक्त कार्य या कानूनी जरूरतों के अतिरिक्त अन्यथा उपयोग में नहीं लाया जायगा।

स्थान :-

तिथि :-

आवेदक का हस्ताक्षर

### महत्त्वपूर्ण अनुदेश

- ऑनलाइन आवेदन जमा करने के पश्चात आवेदन में दी गई सूचना के सत्यापनपोरांत जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र (डी.आर.सी.सी) द्वारा जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर आने की तिथि एवं समय इ-मेल तथा एस म एस द्वारा सूचित की जाएगी। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना हेतु इच्छुक युवाओं को जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर आवेदन जमा करते समय अपने स्वहस्ताक्षरित आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित कागजातों की मूल-प्रति (मूल-प्रति स्कैन करने के उपरांत तत्काल वापस कर दिया जायेगा) एवं स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी -
- (क) आवेदक एवं सह-आवेदक का आधार कार्ड।
  - (ख) मैट्रिक +2 एवं अंतिम सफल परीक्षा का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र।
  - (ग) प्राप्त छात्रवृत्ति, निःशुल्क शिक्षा संबंधी प्रमाण-पत्र इत्यादि (यदि लागू हो)।
  - (घ) पाठ्यक्रम अवधि के सत्यापन हेतु संस्थान के समक्ष प्राधिकार से प्राप्त पाठ्यक्रम विवरणिका अथवा प्रमाण पत्र (बिहार के अंदर अवस्थित महाविद्यालय में इसकी आवश्यकता नहीं है)।
  - (ङ) पाठ्यक्रम में प्रवेश का प्रमाण पत्र।
  - (च) पाठ्यक्रम शुल्क की विवरणी अनुसूची।
  - (छ) छात्र/माता-पिता/अभिभावक/सह-आवेदक का दो पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ।
  - (ज) निवास प्रमाण पत्र (आवासीय प्रमाण पत्र अथवा बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ जिसमें आवास का पता स्पष्ट रूप से अंकित हो अथवा बिजली बिल अथवा टेलिफोन बिल अथवा पासपोर्ट अथवा ड्राइविंग लाईसेंस अथवा वोटर आई०डी० कार्ड अथवा मतदान हेतु प्रयुक्त प्रमाण पत्रों में से कोई एक)।
  - (झ) किसी अनुसूचित बैंक में आवेदक के नाम से संधारित बैंक पासबुक की प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति जिसमें आवेदक का नाम, पता, बैंक खाता संख्या तथा संबंधित बैंक शाखा का आई एफ एस सी कोड स्पष्टतः अंकित हो।

## प्राप्ति रसीद

जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र .....

श्री/श्रीमती/सुश्री ..... से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना हेतु दिनांक .....

को सभी वांछित अनुलग्नकों सहित आवेदन पत्र प्राप्त किया। जिसका निबंधन संख्या ..... है।

प्राप्तकर्ता का पूर्ण हस्ताक्षर -

नाम-

पदनाम -

दिनांक :-

नोट - ऑनलाइन आवेदन करने के 180 दिनों के अंदर किसी भी कार्य दिवस पर जरूरी प्रमाण पत्रों के साथ जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र (डी.आर.सी.सी) पहुंच कर प्रमाण पत्रों का सत्यापन करवाना अनिवार्य है। सत्यापन नहीं कराए जाने की स्थिति में आवेदन स्वतः रद्द हो जाएगा।

किसी भी प्रकार की जानकारी/सहायता हेल्पलाईन नंबर 1800 3456 444. से प्राप्त किया जा सकता है।